

विक्रय सूची प्रपत्र – प्रारूप- MAS-1

mRrjk[k.M fodkl fuxe] foi .ku i Hkkx jkeuxj] i rdk"B fodz; fMi ks %& pklhuh
 uhyke fnukd& 01&12&2020 uhyke LFky& vkeMUMk i fke foØ; l ph %i rdk"B vkfn%
 %lykV%

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|----------------|----------|-----|-------|---------|------------|----------------|
| 1 | 291/20-21 | 19-20 | 459,308 | साल गोल | III | 1.55 | 61-90 | 2 | 0.1199 |
| | | | | | | 1.85 | 91-120 | 3 | 0.3319 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 12 | 1.8626 |
| | | | | | | 2.15 | 121-150 | 3 | 0.7639 |
| | | | | | | 2.15 | 151up | 4 | 1.9875 |
| | | | | | | | ; kx | 24 | 5.0658 |
| 2 | 292/20-21 | 19-20 | 310,424,451 | साल गोल | IV | 0.95 | 31-60 | 1 | 0.0200 |
| | | | | | | 1.25 | 31-60 | 33 | 0.7272 |
| | | | | | | 1.25 | 61-90 | 16 | 0.6974 |
| | | | | | | 1.25 | 91-120 | 9 | 0.8792 |
| | | | | | | 1.25 | 121-150 | 1 | 0.1536 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 18 | 0.5629 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 25 | 1.4725 |
| | | | | | | 1.55 | 91-120 | 6 | 0.6967 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 14 | 0.9780 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 16 | 0.9863 |
| | | | | | | 1.85 | 91-120 | 1 | 0.1088 |
| | | | | | | 1.85 | 121-150 | 1 | 0.1807 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 12 | 0.6322 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 23 | 2.2405 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 14 | 1.5914 |
| | | | | | | 2.15 | 121-150 | 1 | 0.2748 |
| | | | | | | | ; kx | 191 | 12.2022 |
| 3 | 150/20-21 | 19-20 | 423 | साल गोल | IV | 0.95 | 31-60 | 31 | 0.4046 |
| | | | | | | 0.95 | 61-90 | 6 | 0.1913 |
| | | | | | | 0.95 | 121-150 | 1 | 0.1264 |
| | | | | | | 1.25 | 31-60 | 68 | 1.1882 |
| | | | | | | 1.25 | 61-90 | 15 | 0.6672 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 61 | 1.3936 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 24 | 1.2490 |
| | | | | | | 1.55 | 91-120 | 8 | 0.7436 |
| | | | | | | 1.55 | 151up | 1 | 0.2358 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 10 | 0.3147 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 6 | 0.3751 |
| | | | | | | 1.85 | 91-120 | 2 | 0.2001 |
| | | | | | | 1.85 | 151up | 2 | 1.1565 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 10 | 0.3810 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 20 | 1.3918 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 4 | 0.5883 |
| | | | | | | 2.15 | 121-150 | 3 | 0.6855 |
| | | | | | | 2.15 | 151up | 5 | 2.4698 |
| | | | | | | | ; kx | 277 | 13.7625 |
| 4 | 562/19-20 | 19-20 | 1730,1763,1770 | साल गोल | IV | 0.95 | 31-60 | 11 | 0.1492 |
| | | | | | | 0.95 | 121-150 | 1 | 0.0869 |
| | | | | | | 0.95 | 151up | 1 | 0.2770 |
| | | | | | | 1.25 | (31-60) | 39 | 0.7901 |
| | | | | | | 1.25 | 61-90 | 4 | 0.1868 |
| | | | | | | 1.25 | 151up | 1 | 0.2050 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 25 | 0.6833 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 7 | 0.3535 |
| | | | | | | 1.55 | 91-120 | 2 | 0.2035 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 12 | 0.4093 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 5 | 0.2417 |
| | | | | | | 1.85 | 91-120 | 2 | 0.2227 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 5 | 0.1748 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 5 | 0.3583 |
| | | | | | | 2.15 | 151up | 1 | 0.4210 |
| | | | | | | | ; kx | 121 | 4.7631 |
| 5 | 306/20-21 | 19-20 | 1522 | शीशम गोल | II | 2.15 | 91-120 | 20 | 3.8224 |
| 6 | 226/20-21 | 19-20 | 555 | शीशम गोल | II | 1.85 | 91-120 | 1 | 0.1529 |
| | | | | | | 2.185 | 121-150 | 3 | 0.7559 |
| | | | | | | | ; kx | 4 | 0.9088 |
| 7 | 227/20-21 | 19-20 | 554,557 | शीशम गोल | III | 1.55 | 61-90 | 2 | 0.1435 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|-------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|
| | | | | | | 1.55 | 91-120 | 1 | 0.1172 |
| | | | | | | 1.55 | 121-150 | 1 | 0.1899 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 2 | 0.1200 |
| | | | | | | 1.85 | 91-120 | 2 | 0.2300 |
| | | | | | | 1.85 | 121-150 | 1 | 0.1836 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 1 | 0.0756 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 1 | 0.1344 |
| | | | | | | 2.15 | 121-150 | 1 | 0.2634 |
| | | | | | | | ; kx | 12 | 1.4576 |
| 8 | 307/20-21 | 19-20 | 1502,1505,1506,1508,1509,1511 | शीशम गोल | III | 1.55 | 61-90 | 1 | 0.0716 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 100 | 8.9907 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 56 | 8.1078 |
| | | | | | | | ; kx | 157 | 17.1701 |
| 9 | 308/20-21 | 19-20 | 1518,1529,1520,1533,1526,1527 | शीशम गोल | III | 2.15 | 61-90 | 70 | 5.7900 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 70 | 9.9618 |
| | | | | | | 2.15 | 121-150 | 2 | 0.5193 |
| | | | | | | | ; kx | 142 | 16.2711 |
| 10 | 309/20-21 | 19-20 | 1535,1536,1540,1515,1517 | शीशम गोल | III | 2.15 | 61-90 | 60 | 5.1942 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 54 | 7.7821 |
| | | | | | | 2.15 | 121-150 | 3 | 0.7715 |
| | | | | | | | ; kx | 117 | 13.7478 |
| 11 | 609/19-20 | 19-20 | 1509 | शीशम गोल | IV | 1.55 | 31-60 | 8 | 0.1593 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 3 | 0.1731 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 7 | 0.1352 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 1 | 0.0740 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 60 | 1.7904 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 48 | 3.3446 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 1 | 0.1317 |
| | | | | | | | ; kx | 128 | 5.8083 |
| 12 | 228/20-21 | 19-20 | 558,556,582 | शीशम गोल | IV | 0.95 | 61-90 | 1 | 0.0380 |
| | | | | | | 1.25 | 31-60 | 3 | 0.0650 |
| | | | | | | 1.25 | 61-90 | 1 | 0.0330 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 10 | 0.2339 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 8 | 0.6584 |
| | | | | | | 1.55 | 91-120 | 2 | 0.2057 |
| | | | | | | 1.55 | 151up | 1 | 0.2327 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 7 | 0.1608 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 8 | 0.5180 |
| | | | | | | 1.85 | 121-150 | 1 | 0.1836 |
| | | | | | | 1.85 | 151up | 1 | 0.3463 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 21 | 0.8623 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 9 | 0.6644 |
| | | | | | | 2.45 | 91-120 | 1 | 0.1382 |
| | | | | | | | ; kx | 74 | 4.3403 |
| 13 | 252/20-21 | 19-20 | 1501,1503 | शीशम गोल | IV | 0.95 | 31-60 | 2 | 0.0487 |
| | | | | | | 0.95 | 61-90 | 1 | 0.0361 |
| | | | | | | 1.25 | 31-60 | 14 | 0.3112 |
| | | | | | | 1.25 | 61-90 | 2 | 0.0744 |
| | | | | | | 1.25 | 91-120 | 1 | 0.1033 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 15 | 0.1285 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 6 | 0.4126 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 14 | 0.3866 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 3 | 0.1285 |
| | | | | | | 1.85 | 91-120 | 1 | 0.1203 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 173 | 5.9196 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 115 | 8.4624 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 6 | 0.8888 |
| | | | | | | | ; kx | 353 | 17.0210 |
| 14 | 253/20-21 | 19-20 | 1504 | शीशम गोल | IV | 0.95 | 31-60 | 4 | 0.0513 |
| | | | | | | 0.95 | 61-90 | 3 | 0.1165 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|-----------|----------|----|------|---------|------------|----------------|
| | | | | | | 1.25 | 31-60 | 8 | 0.1349 |
| | | | | | | 1.25 | 61-90 | 3 | 0.1178 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 32 | 0.7594 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 4 | 0.2535 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 19 | 0.4669 |
| | | | | | | 1.85 | 91-120 | 1 | 0.1044 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 181 | 5.6499 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 90 | 6.3428 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 6 | 0.7386 |
| | | | | | | | ; kx | 351 | 14.7360 |
| 15 | 258/20-21 | 19-20 | 1519 | शीशम गोल | IV | 0.95 | 31-60 | 3 | 0.0570 |
| | | | | | | 0.95 | 61-90 | 2 | 0.0533 |
| | | | | | | 1.25 | 31-60 | 26 | 0.4338 |
| | | | | | | 1.25 | 61-90 | 3 | 0.1691 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 9 | 0.1975 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 6 | 0.1330 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 1 | 0.0650 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 146 | 5.2814 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 48 | 3.2599 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 9 | 1.1771 |
| | | | | | | | ; kx | 253 | 10.8271 |
| 16 | 259/19-20 | 19-20 | 1521,1524 | शीशम गोल | IV | 1.25 | 31-60 | 14 | 0.2776 |
| | | | | | | 1.25 | 61-90 | 3 | 0.1375 |
| | | | | | | 1.25 | 91-120 | 1 | 0.0845 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 12 | 0.2545 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 2 | 0.0942 |
| | | | | | | 1.55 | 91-120 | 1 | 0.1344 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 18 | 0.4757 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 5 | 0.3223 |
| | | | | | | 1.85 | 91-120 | 2 | 0.2447 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 142 | 4.8811 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 88 | 6.1643 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 8 | 1.1173 |
| | | | | | | 2.15 | 121-150 | 2 | 0.4616 |
| | | | | | | | ; kx | 298 | 14.6497 |
| 17 | 260/20-21 | 19-20 | 1528 | शीशम गोल | IV | 0.95 | 31-60 | 4 | 0.0484 |
| | | | | | | 0.95 | 61-90 | 1 | 0.0904 |
| | | | | | | 1.25 | 31-60 | 13 | 0.2332 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 8 | 0.1914 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 1 | 0.0409 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 9 | 0.2844 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 3 | 0.2140 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 137 | 5.1351 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 80 | 5.8016 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 9 | 1.2152 |
| | | | | | | 2.15 | 121-150 | 2 | 0.4634 |
| | | | | | | | ; kx | 267 | 13.7180 |
| 18 | 261/20-21 | 19-20 | 1531,1534 | शीशम गोल | IV | 0.95 | 31-60 | 1 | 0.0214 |
| | | | | | | 1.25 | 31-61 | 8 | 0.1543 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 9 | 0.1989 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 1 | 0.0409 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 11 | 0.2591 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 1 | 0.0740 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 153 | 6.5997 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 30 | 2.1821 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 4 | 0.5155 |
| | | | | | | | ; kx | 218 | 10.0459 |
| 19 | 262/20-21 | 19-20 | 1537,1541 | शीशम गोल | IV | 0.95 | 31-60 | 6 | 0.0831 |
| | | | | | | 1.25 | 31-60 | 13 | 0.3071 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|-----------|-----------|-----|------|---------|------------|----------------|
| | | | | | | 1.25 | 61-90 | 3 | 0.0904 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 14 | 0.2989 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 1 | 0.0397 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 15 | 0.4219 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 1 | 0.0756 |
| | | | | | | 1.85 | 91-120 | 1 | 0.1203 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 153 | 5.4564 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 112 | 8.1465 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 10 | 1.2773 |
| | | | | | | | ; kx | 329 | 16.3172 |
| 20 | 256/20-21 | 19-20 | 1514 | शीशम गोल | IV | 0.95 | 31-60 | 4 | 0.0544 |
| | | | | | | 0.95 | 61-90 | 3 | 0.0730 |
| | | | | | | 1.25 | 31-60 | 5 | 0.0772 |
| | | | | | | 1.25 | 61-90 | 3 | 0.1105 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 3 | 0.0443 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 2 | 0.0756 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 9 | 0.2393 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 3 | 0.1437 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 100 | 3.4285 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 52 | 3.9357 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 8 | 1.0481 |
| | | | | | | | ; kx | 192 | 9.2303 |
| 21 | 257/20-21 | 19-20 | 1516 | शीशम गोल | IV | 0.95 | 31-60 | 3 | 0.0424 |
| | | | | | | 0.95 | 31-60 | 4 | 0.0525 |
| | | | | | | 1.25 | 31-60 | 10 | 0.1650 |
| | | | | | | 1.25 | 61-90 | 2 | 0.0600 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 11 | 0.1866 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 3 | 0.0530 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 4 | 0.1051 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 3 | 0.0773 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 104 | 4.3578 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 78 | 5.7097 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 8 | 1.0885 |
| | | | | | | | ; kx | 230 | 11.8979 |
| 22 | 254/20-21 | 19-20 | 1507 | शीशम गोल | IV | 0.95 | 31-60 | 5 | 0.0721 |
| | | | | | | 1.25 | 31-60 | 19 | 0.3600 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 29 | 0.5739 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 8 | 0.4040 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 14 | 0.4267 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 3 | 0.1521 |
| | | | | | | 1.85 | 91-120 | 2 | 0.2400 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 186 | 7.6253 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 87 | 6.2551 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 9 | 1.0589 |
| | | | | | | | ; kx | 362 | 17.1681 |
| 23 | 255/20-21 | 19-20 | 1512,1513 | शीशम गोल | IV | 0.95 | 31-60 | 4 | 0.0570 |
| | | | | | | 0.95 | 61-90 | 5 | 0.0535 |
| | | | | | | 1.25 | 31-60 | 16 | 0.2222 |
| | | | | | | 1.25 | 61-90 | 3 | 0.0873 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 9 | 0.1646 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 3 | 0.1558 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 16 | 0.3842 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 5 | 0.2418 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 234 | 8.9205 |
| | | | | | | 2.15 | 61-90 | 98 | 7.0711 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 5 | 0.6464 |
| | | | | | | | ; kx | 398 | 18.0044 |
| 24 | 610/19-20 | 19-20 | 1530 | कोकाट गोल | III | 2.45 | 61-90 | 1 | 0.1055 |
| | | | | | | 2.45 | 91-120 | 2 | 0.3788 |
| | | | | | | | ; kx | 3 | 0.4843 |
| 25 | 566/19-20 | 19-20 | 1726 | dkdkV xky | III | 1.55 | 121-150 | 1 | 0.2037 |
| | | | | | | 2.45 | 121-150 | 1 | 0.3088 |
| | | | | | | 2.45 | 151up | 2 | 0.8274 |
| | | | | | | | ; kx | 4 | 1.3399 |
| 26 | 297/20-21 | 19-20 | 685 | कोकाट | III | 2.15 | 61-90 | 1 | 0.1060 |
| | | | | | | 2.45 | 31-60 | 2 | 0.0861 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|-----------------|-------------|-----|-----------|---------|------------|-----------------|
| | | | | | | 2.45 | 61-90 | 10 | 1.0518 |
| | | | | | | 2.45 | 91-120. | 10 | 1.6947 |
| | | | | | | 2.45 | 121-150 | 1 | 0.3445 |
| | | | | | | | ; kx | 24 | 3.2831 |
| 27 | 279/20-21 | 19-20 | 1077 | dkdkV xky | IV | 1.25 | 31-60 | 4 | 0.0690 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 4 | 0.0625 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 3 | 0.0792 |
| | | | | | | 2.45 | 31-60 | 51 | 2.1519 |
| | | | | | | 2.45 | 61-90 | 15 | 1.0719 |
| | | | | | | 2.45 | 91-120 | 19 | 3.3589 |
| | | | | | | | ; kx | 96 | 6.7934 |
| 28 | 592/19-20 | 19-20 | 1642,1713 | l knu xky | IV | 1.25 | 31-60 | 5 | 0.0585 |
| | | | | | | 1.55 | 31-60 | 27 | 0.5011 |
| | | | | | | 1.55 | 61-90 | 1 | 0.0785 |
| | | | | | | 1.85 | 31-60 | 5 | 0.1135 |
| | | | | | | 1.85 | 61-90 | 1 | 0.0474 |
| | | | | | | 2.15 | 31-60 | 2 | 0.0813 |
| | | | | | | 2.15 | 91-120 | 1 | 0.1935 |
| | | | | | | 2.15 | 121-150 | 1 | 0.3023 |
| | | | | | | | ; kx | 43 | 1.3761 |
| 29 | 356/20-21 | 19-20 | 901 | l ey xky | B | 1.25-2.45 | 31up | 107 | 14.9510 |
| 30 | 357/20-21 | 19-20 | 902 | l ey xky | B | 1.25-2.45 | 31up | 152 | 19.3990 |
| 31 | 358/20-21 | 19-20 | 903 | l ey xky | B | 1.25-2.45 | 31up | 121 | 14.8408 |
| 32 | 359/20-21 | 19-20 | 907 | l ey xky | B | 1.25-2.45 | 31up | 128 | 16.1765 |
| 33 | 360/20-21 | 19-20 | 909 | l ey xky | B | 1.25-2.45 | 31up | 140 | 17.9556 |
| 34 | 361/20-21 | 19-20 | 904 | , yUfkl xky | B | 1.25-2.45 | 31up | 136 | 10.7527 |
| 35 | 362/20-21 | 19-20 | 809 | dit xky | B | 1.25-2.45 | 31up | 140 | 16.9409 |
| 36 | 363/20-21 | 19-20 | 815 | dit xky | B | 1.25-2.45 | 31up | 161 | 22.0273 |
| 37 | 364/20-21 | 19-20 | 816 | dit xky | B | 1.25-2.45 | 31up | 126 | 17.4033 |
| 38 | 365/20-21 | 19-20 | 822 | x y xky | B | 1.25-2.45 | 31up | 187 | 17.3506 |
| 39 | 164/20-21 | 19-20 | 426 | हल्दू | D | 1.25-2.45 | 31up | 9 | 0.5516 |
| 40 | 353/19-20 | 18-19 | 927,928,953,954 | तुन गोल | B | 1.55-2.45 | 31up | 42 | 5.7151 |
| 41 | 317/20-21 | 19-20 | 1102 | खरपट | B | 0.95-2.45 | 31up | 32 | 3.3300 |
| 42 | 367/20-21 | 19-20 | 153 | dkydk"V | tM | | | | 80.0000 |
| 43 | 368/20-21 | 19-20 | 154 | dkydk"V | tM | | | | 80.0000 |
| 44 | 369/20-21 | 19-20 | 156 | dkydk"V | tM | | | | 80.0000 |
| 45 | 370/20-21 | 19-20 | 157 | dkydk"V | tM | | | | 80.0000 |
| 46 | 371/20-21 | 19-20 | 159 | dkdkV | tM | | | | 25.0000 |
| 47 | 245/20-21 | 19-20 | 203 | यूके० लि० | जड़ | | | | 120.0000 |
| 48 | 246/20-21 | 19-20 | 201,202 | यूके० लि० | जड़ | | | | 100.0000 |
| 49 | 247/20-21 | 19-20 | 204,205 | यूके० लि० | जड़ | | | | 72.0000 |
| 50 | 248/20-21 | 19-20 | 206,207 | यूके० लि० | जड़ | | | | 86.0000 |
| 51 | 249/20-21 | 19-20 | 209 | यूके० लि० | जड़ | | | | 100.0000 |
| 52 | 250/20-21 | 19-20 | 210,211,212 | यूके० लि० | जड़ | | | | 81.0000 |
| 53 | 251/20-21 | 19-20 | 213,214 | यूके० लि० | जड़ | | | | 56.0000 |
| 54 | 302/20-21 | 19-20 | 142 | कोकाट | जड़ | | | | 55.6500 |
| 55 | 303/20-21 | 19-20 | 145 | कोमलकाष्ट | जड़ | | | | 69.6600 |
| 56 | 304/20-21 | 19-20 | 143,144 | कोमलकाष्ट | जड़ | | | | 80.0000 |
| 57 | 174/20-21 | 19-20 | 101 | कोमलकाष्ट | जड़ | | | | 56.0000 |
| 58 | 183/20-21 | 19-20 | 117 | कोमलकाष्ट | जड़ | | | | 73.6000 |
| 59 | 184/20-21 | 19-20 | 119 | कोमलकाष्ट | जड़ | | | | 76.0000 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------|-------|-----------|--------|-----------------------|-----------------|
| 60 | 185/20-21 | 19-20 | 121 | कोमलकाष्ट | जड़ | श्रमिकों द्वारा खुदान | 42.0000 |
| 61 | 186/20-21 | 19-20 | 122 | कोमलकाष्ट | जड़ | श्रमिकों द्वारा खुदान | 110.0000 |
| 62 | 187/20-21 | 19-20 | 123 | कोमलकाष्ट | जड़ | श्रमिकों द्वारा खुदान | 150.0000 |
| 63 | 188/20-21 | 19-20 | 124 | कोमलकाष्ट | जड़ | श्रमिकों द्वारा खुदान | 150.0000 |
| 64 | 366/20-21 | 19-20 | 74,75 | dkæydk"V | tyk&uh | | 43.0500 |
| 65 | 347/20-21 | 19-20 | 71 | सागौन | जलौनी | | 24.0146 |
| 66 | 20/08/2021 | 19-20 | 15,18 | कोकाट | जलौनी | | 48.8000 |
| 67 | 17/20-21 | 19-20 | 32 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 48.0000 |
| 68 | 299/20-21 | 19-20 | 66 | कोकाट | जलौनी | | 35.7490 |
| 69 | 300/20-21 | 19-20 | 67,68 | कोकाट | जलौनी | | 40.0000 |
| 70 | 91/20-21 | 19-20 | 16,49 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 41.4500 |
| 71 | 44/20-21 | 19-20 | 47,48 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 46.6800 |
| 72 | 9/20-21 | 19-20 | 19,20 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 41.0700 |
| 73 | 10/20-21 | 19-20 | 21 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 38.4000 |
| 74 | 11/20-21 | 19-20 | 22,23 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 46.3500 |
| 75 | 12/20-21 | 19-20 | 24,25 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 49.5000 |
| 76 | 14/20-21 | 19-20 | 27,28 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 46.3500 |
| 77 | 16/20-21 | 19-20 | 31,33 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 43.2000 |
| 78 | 18/20-21 | 19-20 | 34,39 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 43.9500 |
| 79 | 19/20-21 | 19-20 | 35 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 44.8000 |
| 80 | 21/20-21 | 19-20 | 37 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 37.2000 |
| 81 | 459/19-20 | 19-20 | 1230 | सागौन | जलौनी | | 18.0000 |
| 82 | 169/20-21 | 19-20 | 55 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 32.0000 |
| 83 | 171/20-21 | 19-20 | 58,59 | कोमलकाष्ट | जलौनी | | 48.0000 |